

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल- बक्सर

पत्रांक-1848/बक्सर

दिनांक-31/07/23

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल- बक्सर

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA)
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय- शीर्ष 3054 (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018) योजना अंतर्गत राशि की अधियाचना के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि योजना शीर्ष 3054 मरम्मत (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति- 2018) अंतर्गत कराये गए कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता है जिसे अधियाचना प्रपत्र के साथ सलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि सलग्न विवरणी के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि संवेदकों द्वारा कराये गए कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन


31.07.23
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बक्सर

31/07/23

FORM GFR 19-A
(SEE Government of India's Decision (I) below Rule-150)
Form of Utilisation Certificate upto the month of Dec 2018

MR (3054) New Maintenance Policy 2018

PIU - RWD (W), Div.- Buxar

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	Constructi on of Rural Roads under MR (3054) Maintena nce	Lt. No.- 102, dt.-21.07.2023	9808.19776	Certified that out of Rs. 9808.19776lacs received during the years in favour of Ex. Engineer, RWD (W), Div.- Buxar Bihar, a sum of Rs 9787.05697 lacs been utilized for the purpose of MR (3054) New Maintenance Policy 2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 21.14079 lacs remaining unutilized at the end of the period under
Total -				

- 2 Certified that I have stisfied myself that the conditions on which the grans-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Supertending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Supertending Engineer.
- Construction materials have been tested
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal formalities have been observed.

3 Physical Progress achieved :-

- Construction of Road works
- Construction of CD works

31.07.23
Executive Engineer

R.W.D. (w) Div. Buxar

AK
31/07/23


Position Format for Scheme Head- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy- 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Form of Works Division- RWD, Works Division- Buxar

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date Of Completion as per Agreement	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Previous Total Allotted Amount (In Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (in KM)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification With Surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)									
1	RM/BU/BU X/23/0001	L046-L028 TO LAL SINGH KEDARA (L46)	10401902082	Letter No 1796 & 20/03/2023	1.100	51.78	35.7749	14.29663	05/MBD/2023-24 & dt 20.06.2023	19.03.2024							
2	RM/BU/BU X/23/0001	L051-BUXAR SASARAM SRIKANTPUR MORE TO SONI (VR51)	10401902120	Letter No 1796 & 20/03/2023	1.200	81.096	55.59379	15.07828	05/MBD/2023-24 & dt 20.06.2023	19.03.2024	1856	25 mm	5.00%	0	0	48.40607	
3	RM/BU/BU X/23/0001	Chausa Ramnagar Road to Khadpura	14191032882	Letter No 1796 & 20/03/2023	1.402	69.22	48.52823	18.29651	05/MBD/2023-24 & dt 20.06.2023	19.03.2024	2103	25 mm	5.00%	0	0		

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed
2. Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS


31.03.23



31.03.23
Executive Engineer
RWD (W), Div.- Buxar

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर


का0आ0स.....1849..... बक्सर/ दिनांक.....31/07/23.....

कार्यालय आदेश

प्रमाणित किया जाता है कि बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीती-2018
योजनान्तर्गत L051-BUXAR SASARAM SRIKANTPUR MORE TO SONI (VR51) पथ का
कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कराया गया है। पथ के मापीपुस्त की
जाँच मेरे द्वारा 10 प्रतिशत, सहायक अभियंता द्वारा 50 प्रतिशत एवं कनीय
अभियंता के द्वारा शतप्रतिशत किया गया है।



31.07.2023
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रशाखा राजपुर

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल राजपुर


31.07.23
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बक्सर

File : C:\Users\7SURYANAND MISHRA\Downloads\28070941.Xls. Section No. : 17, Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.816 \cdot X +$

Name of Customer : Shailesh Singh. Name of Work/ Road : L051-BUXAR SASARAM SRIKANTPUR MORE TO SONI



Shuryan
31.07.2023
J.E

31.07.23

Road Name:-L051-BUXAR SASARAM SRIKANTPUR MORE TO SONI (VR51) Contractor Name:- Shailesh Singh

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI CATEGORY	Latitude	ongitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km			
28/7/23	8: 8: 0	17	0.1	217	10.1	2170	1923 G	25.35644	83.84067	Normal
28/7/23	8: 9: 0	17	0.1	270	10.1	2700	2452 G	25.35673	83.83975	Normal
28/7/23	8: 9: 38	17	0.1	230	10.1	2300	2125 G	25.356	83.83938	Normal
28/7/23	8: 10: 14	17	0.1	250	10.1	2500	2288 G	25.35522	83.83886	Normal
28/7/23	8: 10: 49	17	0.1	160	10.1	1600	1554 G	25.35435	83.8385	Normal
28/7/23	8: 11: 0	17	0.1	180	10.1	1800	1717 G	25.35348	83.83818	Normal
28/7/23	8: 11: 24	17	0.1	230	10.1	2300	2125 G	25.35261	83.83801	Normal
28/7/23	8: 12: 0	17	0.1	180	10.1	1800	1717 G	25.35171	83.83764	Normal
28/7/23	8: 13: 0	17	0.1	220	10.1	2200	2044 G	25.35177	83.83677	Normal
28/7/23	8: 15: 31	17	0.1	110	10.1	1100	1146 G	25.35155	83.83663	Normal
28/7/23	8: 16: 0	17	0.1	220	10.1	2200	2044 G	25.35127	83.83627	Normal
28/7/23	8: 16: 31	17	0.1	110	10.1	1100	1146 G	25.35072	83.83597	Normal
		Length	1.2							

$$Y = 0 * X^2 + 0.816 * X + 249$$

$$X = 1100$$

$$Y = 1146$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

IRI Value=1856

Machine ID=415

Shailesh Singh

31.07.2023

2.6

31.07.23